



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 28, गुरुवार, शाके 1941-सितम्बर 19, 2019
Bhadra 28, Thursday, Saka 1941-September 19, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
RAJASTHAN, JAIPUR
ORDER**

Jaipur September 05, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/8788 .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Bayana has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Bayana. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Government.

कार्यालय नगर पालिका मण्डल बयाना जिला भरतपुर (राज0)

प्रारूप-क

क्र0सं0	वार्ड सं0	सीमांकन का विवरण
1-	1	देवी के मंदिर से हिण्डौन रोड पर दक्षिण दिशा में चलकर पश्चिमी भाग की समस्त आबादी को शामिल करते हुये नर्सिंग हॉस्पिटल को लेते हुये मन्नापुरियाओं की गली में तरफ पश्चिम दिशा में मुडकर सीधे-सीधे चलते हुये उत्तरी भाग को लेते हुये दक्षिणी भाग की आबादी को छोडते हुये जनक अध्यापक पूरन पण्डित के मकानों को लेते हुये कमलहौज नाले को पार कर रघुनाथ शर्मा चतुर्भुज शर्मा झम्मन लाल शर्मा महेन्द्र मिस्त्री के मकानों को शामिल करते हुये दक्षिण दिशा में मुडकर पुराने षिवालय को शामिल करते हुये रामभरोसी पण्डित के प्लॉट पर पहुचकर प्लॉट को छोडकर उत्तर दिशा में सीधे सीधे चलकर पूर्वी भाग की आबादी को शामिल करते हुये गली में मुडकर मुरारी बिड़्यारी लख्मी भगोरा रमेश कारवारी के मकानों को लेते हुये नगर पालिका रोड पर पहुँचकर उत्तर दिशा में सीधे सीधे चलकर प्रेम सिंह जाट व पूर्वी भाग की आबादी को शामिल करते हुये अमृत गुर्जर के मकान से बन्ध की पार पर पहुँचकर पूर्व दिशा में चलकर सीधे उत्तरी दक्षिणी भाग की आबादी को शामिल करते हुये पुरानी बजाज एजेन्सी से भरतपुर रोड पर तरफ

		उत्तर दिशा में चलकर देवीजी के मंदिर तक।
2-	2	मन्नापुरिया के मकान के सामने जीओ टावर से तरफ पश्चिम दिशा में चलकर सीधे-सीधे मिठ्ठन जाट पातीराम अध्यापक वाली गली वीरेन्द्र फौजी के मकान एवं दक्षिण भाग की आबादी को लेते हुये नाला पार कर ओमप्रकाश धाकड के मकान को लेते हुये त्यौहारी वाले के मकान से दक्षिण दिशा में मुडकर प्यामवीर पण्डित बाबू लाल रेवाडी नैमी ठेकेदार के मकानों को शामिल करते हुये पश्चिम दिशा में मुडकर दक्षिण दिशा की समस्त आबादी को शामिल करते हुये रज्जो अजीत वकील के मकान को शामिल कर रामभरोसी पण्डित के प्लॉट से उत्तर दिशा में सीधे सीधे चलकर गली में मुडकर पश्चिम दिशा में चलकर शंकर भगवत मामटौली वाले पप्पू भगोरा एवं अशोक कारवारी राधेप्याम जाट वाली गली के मकानों को शामिल करते हुये नगर पालिका के पीछे वाली सडक पर पहुँचकर पश्चिम भाग की समस्त आबादी एवं साईनाथ आई०टी०आई० से उत्तर दिशा में सीधे-सीधे रोड पर चलकर पश्चिम भाग की समस्त आबादी को शामिल करते हुये झम्मन गूजर के मकान को लेते हुये पश्चिम दिशा में मुडकर बन्ध की पार पर पहुचकर दक्षिण दिशा में चलकर कंडेरा कॉलौनी शनिदेव कॉलौनी एवं पूर्वी-पश्चिमी भाग की आबादी को लेते हुये दमदमा रोड पर आकर पूर्व दिशा में मुडकर सीधे-सीधे चलकर गैस गोदाम व लक्ष्मन वकील वाली कॉलौनी की समस्त आबादी को शामिल करते हुये जगदीश सैनी सुमरन सैनी के मकानों की आबादी को लेते हुये शिवचरन कोली के मकान वाली गली की दोनों तरफ की आबादी को शामिल करते हुये आर०के० हॉस्पिटल सिविल लाईन एरिया की समस्त आबादी को लेते हुये सीधे-सीधे दमदमा रोड पर चलकर अतर सिंह गूजर की सीमेन्ट वाली दुकान को लेते हुये तरफ उत्तर दिशा में मुडकर पंचायत समिति रोड पर चलकर पंचायत समिति कार्यालय वकील मिश्रान भण्डार वाली लाईन को शामिल करते हुये पश्चिमी भाग की समस्त आबादी को शामिल करते हुये जीओ टावर तक।
3-	3	दमदमा मोड (मनोरमा मोटर्स) से चलकर हिण्डौन रोड की तरफ मैन रोड पर सीधे-सीधे चलकर रमेश इन्दौलिया वकील के मकान एक्सिस बैंक तलाकनी मस्जिद भाग सिंह सूपा मार्केट को शामिल करते हुये प्याम सरोवर पुलिया से अन्दर चलकर दोनों साईडों की आबादी को शामिल करते हुये डॉ० मनोज धाकड के नवनिर्मित भवन को लेते हुये ठाकुर सुमरन सिंह स्व० गंभीर सिंह अध्यापक के खेतों से होते हुये पहाड की तलहटी से चलते हुये सिलाहरी सीसी रोड पर चलते हुये दमदमा रोड पर आकर दक्षिणी भाग की समस्त आबादी को लेते हुये (गैस गोदाम के सामने वाली लाईन) यादराम सरपंच धर्मा माली गोविन्द माली सरकारी क्वार्टरों को शामिल करते हुये गैस एजेन्सी को लेते हुये दमदमा मोड पंचायत समिति रोड पर मनोरमा मोटर्स तक।
4-	4	जहाँगीरी गेट से दक्षिण की ओर चलकर नैमी चन्द वकील की दुकानों को

	अनुसूचित जाति	शामिल करते हुये रास्ते में होकर पश्चिम की ओर चलकर गंगाराम पूर्व सांसद के मकान को शामिल करते हुये मांगी कुम्हार के मकान कुम्हारों की अँथाई जोगियों की बैठक को शामिल करते हुये रास्ते-रास्ते चलकर बालकिशन शर्मा के मकान को शामिल करते हुये रूपी निहाल सिंह पण्डित के मकान कमल कोली का मकान को शामिल करते हुये रास्ते में होते हुये उत्तर दिशा में चलकर सैमराज माली के मकान को छोड़ते हुये कमल हौज नाले पर चलते हुये मनमनदास मंदिर की दक्षिणी आबादी को शामिल करते हुये गिर्राज तरारे का मकान गोपाल गूजर के मकान को लेते हुये कोलियों के कुँआ को लेते हुये प्याम सरोवर कॉलौनी को छोड़ते हुये पदम माली के मकान को शामिल करते हुये जहाँगीरी गेट तक की समस्त आबादी।
5-	5 अनुसूचित जाति	भजन कोली के मकान से पश्चिम की तरफ चलकर महेन्द्र वकील के मकान को लेते हुये हाई स्कूल की बाऊण्डी के सहारे-सहारे रास्ते में आगे चलकर भगवत बनिया की दुकान को लेते हुये मंगल ड्राईवर के मकान को लेते हुये रास्ते में आगे चलकर भूर सिंह यादराम के मकानों को लेते हुये लक्ष्मण के मकान को छोड़ते हुये रास्ते में आगे चलकर दिनेश कोली के मकान तक दक्षिण दिशा की समस्त आबादी दिनेश के मकान से दक्षिण की तरफ मुड़कर रास्ते में आगे चलकर कोलियों की अँथाई को छोड़ते हुये पूर्व की ओर मुड़कर चुन्नी कोली कृषि विभाग को लेते हुये रास्ते में आगे चलकर रामचरन वकील के घर तक उत्तर दिशा की समस्त आबादी रामचरन वकील के मकान से उत्तर की तरफ मुड़कर गुदडी मौहल्ला को शामिल करते हुये एस0डी0एम0 ऑफिस हाई स्कूल को लेते हुये आगे चलकर भजन कोली के मकान तक पश्चिम दिशा की समस्त आबादी।
6-	6 अनुसूचित जाति	हजारी कोली की दुकान से पश्चिम की तरफ मुड़कर नारायण कोली से आगे चलकर रामोली गुर्जर के मकान को लेते हुये रामोली से आगे चलकर चुन्नी जोगी के मकान को लेते हुये चुन्नी जोगी के मकान से दक्षिण दिशा की तरफ मुड़कर दोनों साईड के मकानों की आबादी को लेते हुये रास्ते-रास्ते चलकर जाटों की अँथाई को शामिल करते हुये जाटों की अँथाई से पश्चिम की तरफ मुड़कर रोड क्रॉस कर सप्पू के मकान को छोड़ते हुये दक्षिण की ओर मुड़कर रास्ते-रास्ते चलकर लक्ष्मी पंजाबी के मकान को लेते हुये राजेन्द्र प्रसाद भटनागर के स्कूल को लेते हुये आगे चलकर गिर्राज पटवारी के मकान तक पूर्व दिशा की समस्त आबादी गिर्राज पटवारी के मकान से पूर्व दिशा की तरफ मुड़कर रामस्वरूप नाई के मकान को लेते हुये आगे चलकर छोटे दरवाजे में घुसकर उत्तर की ओर मुड़कर करन सिंह जाट के मकान को लेते हुये बड़े दरवाजे से निकलकर पूर्व की ओर मुड़कर सोनी गुर्जर के मकान को लेते हुये विवेकानन्द स्कूल को छोड़ते हुये रास्ते में आगे चलकर चतरे टिकिया वाले के मकान को लेते हुये उत्तर की ओर मुड़कर रामेश्वर शर्मा आर0आई0 के

		<p>मकान को छोड़ते हुये सौरभ बैंक वाले के मकान को लेते हुये आगे चलकर पुरावाईखेडा वालों के मकान को लेते हुये पुरावाईखेडा वालों के मकान से पश्चिम की तरफ मुड़कर रास्ते-रास्ते चलकर उदय सिंह कोली मुरारी नक्षा नवीश के मकानों को लेते हुये आई०टी०आई० को लेते हुये दक्षिण दिशा की समस्त आबादी आई०टी०आई० से उत्तर की तरफ मुड़कर अँथाई को शामिल करते हुये रास्ते-रास्ते चलकर भरोसी मास्टर के मकान को लेते हुये सुम्मेर सिंह के मकान को लेते हुये सुम्मेर सिंह के मकान से पूर्व की तरफ मुड़कर रास्ते में आगे चलकर लक्ष्मण कोली के मकान तक उत्तर दिशा की समस्त आबादी लक्ष्मण कोली के मकान से उत्तर तरफ मुड़कर आगे चलकर हजारी की दुकान तक पश्चिम दिशा की समस्त आबादी क्षेत्र।</p>
7-	7	<p>अमर सिंह जाट के मकान से पश्चिम की तरफ चलकर रास्ते-रास्ते सुमरन सिंह माली की चक्की पूरन समय सिंह माली से आगे चलकर नैमी जोगी के मकान को लेते हुये बनय सिंह जोगी के मकान को लेते हुये रास्ते में आगे चलकर मोहन सिंह बिजली वाले के मकान को लेते हुये दक्षिण दिशा की समस्त आबादी मोहन सिंह के मकान से दक्षिण की तरफ मुड़कर रामखिलाडी बालकिशन पण्डित के खेतों में बसी हुई आबादी को लेते हुये भोजराज पंजाबी के मकान को लेते हुये आगे बड वाले कुआ के पास वाली आबादी को लेते हुये मदान में हीरामन के थान से पूर्व की ओर मुड़कर रास्ते में चलकर डॉ० नैमी चन्द के मकान को लेते हुये रास्ते में आगे चलकर हरीश मास्टर के मकान तक उत्तर दिशा की समस्त आबाद रोड क्रॉस कर मोहन डॉक्टर के मकान को लेते हुये दक्षिण की तरफ मुड़कर तरसूमा वालों के मकान को लेते हुये पूर्व की समस्त आबादी तरसूमा वालों के मकान के पीछे वाली गली में मुड़कर पूर्व की ओर चलकर जोषियों को छोड़ते हुये रूपेन्द्र भटनागर के मकान से उत्तर दिशा में चलकर पश्चिम दिशा की समस्त आबादी को शामिल करते हुये आगे चलकर सत्यप्रकाश गर्ग के मकान को लेते हुये रोड क्रॉस कर प्याम पंजाबी तक उत्तर पश्चिम की समस्त आबादी।</p>
8-	8	<p>तरसूमा वालों की दुकान से चलकर रास्ते-रास्ते पश्चिमी दिशा की तरफ चलते हुये ईश्वर पण्डित के मकान को लेते हुये भगवान सिंह गूजर के मकान को लेते हुये मदान से उतर कर हीरामन थान को शामिल करते हुये हीरामन मंदिर से दक्षिण की ओर चलते हुये पहाड की तलहटी-तलहटी होते हुये मोहन गूजर के मकान को लेते हुये पहाड की उत्तर दिशा की समस्त आबादी को लेते हुये प्याम सिंह माली के मकान को लेते हुये प्याम सिंह माली से उत्तर की दिशा में चलते हुये दीना के मकान को शामिल करते हुये दीना के मकान से पश्चिम की दिशा में चलते हुये परभाती जोगी के मकान को लेते हुये बाबू लाल गौड के मकान को छोड़ते हुये बलवीर सिंह माली के मकान को लेते हुये रामस्वरूप नाई के मकान को छोड़ते हुये रास्ते-रास्ते चलकर गिराज पटवारी के मकान को छोड़ते हुये जोषियों के मकान को लेते हुये तरसूमा वालों के मकान</p>

		को छोड़ते हुये सम्पूर्ण पश्चिमी आबादी को शामिल करते हुये तरसूमा वालों की दुकान तक की समस्त आबादी।
9-	9	नैमी चन्द उपाध्याय के मकान को लेते हुये पश्चिम दिशा की तरफ चलकर नरेश नारंग के मकान को शामिल करते हुये बिलोची मंदिर को शामिल करते हुये रास्ते में आगे चलकर विवेकानन्द स्कूल को शामिल करते हुये बड़े दरवाजे में घुसकर दक्षिण की तरफ मुड़कर डी०एस०पी० कोठी को शामिल करते हुये छोटे दरवाजे से निकलकर बाबू लाल गौड के मकान को लेते हुये बाबू लाल गौड के मकान से पश्चिम की तरफ मुड़कर हर प्रसाद के मकान तक दक्षिण दिशा की आबादी हर प्रसाद गौड के मकान से दक्षिण में मुड़कर रास्ते में आकर सुरेन्द्र गौड के मकान को छोड़ते हुये पूर्व की तरफ मुड़कर माधुरी भवन को लेते हुये दीना के मकान को छोड़ते हुये गली में दक्षिण की तरफ मुड़कर बीधा सैनी के मकान को लेते हुये बीधा सैनी के मकान से पूर्व की ओर मुड़कर पहाड के सहारे-सहारे द्रोपती नर्स के मकान को शामिल करते हुये राधे हरिजन के मकान को शामिल करते हुये तरफ उत्तर में मुड़कर लज्जा नाई के मकान को शामिल करते हुये एवं पश्चिम दिशा की समस्त आबादी को शामिल करते हुये सडक क्रॉस कर जय सिंह गिरदावर तक पश्चिम दिशा की समस्त आबादी जय सिंह के मकान से नैमी चन्द उपाध्याय के मकान तक की समस्त आबादी।
10-	10 अनुसूचित जाति	विमल की बगीची से मोती रावत के मकान को शामिल करते हुये तरफ उत्तर दिशा में हिण्डौन भरतपुर रोड पर तरफ पश्चिम की आबादी गाडिया लुहार एवं हरिजन बस्ती को शामिल करते हुये कलुआ गूजर के मकान को शामिल करते हुये सुभाश मुख्खी के मकान को शामिल करते हुये गाँधी चौक चौराहा से तरफ पश्चिम चलकर अम्बेडकर पार्क को शामिल करते हुये दक्षिण आबादी को शामिल करते हुये भूशण सब्जी वाले के सामने गली में द्वारिका वैष्य की दुकान को शामिल करते हुये तरफ पश्चिम गली में भूशण पंजाबी की दुकान सुरेश बिड्यारी वालों के मकान को शामिल करते हुये राम प्रसाद उपाध्याय लोकेन्द्र शरण पटवारी को शामिल करते हुये षिवचरन नहरौली वाले के मकान को शामिल करते हुये तरफ पश्चिम जगदीश पेशगार का मकान एवं रामेश्वर शर्मा आर०आई० के मकान को शामिल करते हुये तरफ दक्षिण अमरनाथ बिजली वाले के मकान को शामिल करते हुये पंजाबी मंदिर को छोड़ते हुये तरफ पूर्व रेवती पटवारी व इन्द्रदत्त ग्राम सेवक के मकान को शामिल करते हुये तरफ उत्तर गोरधन नाई का मकान व छोटे लाल मास्टर के मकान को शामिल करते हुये दोनों तरफ की आबादी देवेन्द्र नहरौली वालों के मकान को शामिल करते हुये लक्ष्मी नाई के मकान को शामिल करते हुये तरफ उत्तर की समस्त आबादी को लेते हुये वनबारी गुप्ता के मकान को शामिल करते हुये सत्यभान धाकड के मकान को शामिल करते हुये किशन डॉक्टर के मकान को शामिल करते हुये सडक क्रॉस कर दक्षिण में परमसुख आर्य के मकान को

		शामिल करते हुये गली के अन्दर लज्जा गूजर व द्रोपती नर्स के मकान को छोड़ते हुये पहाड की तलहटी तलहटी होकर तरफ पूर्व होकर विमल की बगीची तक की समस्त आबादी।
11-	11	देवी सिंह सरपंच के मकान से लेकर हिण्डौन रोड का पूर्वी हिस्सा दक्षिण दिशा में चलते हुये दर्जी पाडा व सकोरी पाडा की समस्त आबादी एवं अम्बा सिनेमा खानगा की आबादी कपूरा वालों के भट्टे पर होकर भगवानदास की बगीची को शामिल करते हुये कुण्डा बर्फ फैक्ट्री व मालियों के मकानों को व झंझरी को शामिल करते हुये सुनार गली की ओर बौना धोबी के खेत की आबादी को शामिल करते हुये सुनार गली के पश्चिमी भाग की आबादी को शामिल करते हुये द्वारिका सुनार के मकान से चलकर उत्तर दिशा में बल्ली बदन जाटों के मकान को शामिल करते हुये जीवन के मकान से गली में मुडकर नैमी चन्द एडवोकेट के मकान पर होकर देवी सिंह सरपंच के मकान तक की समस्त आबादी।
12-	12	जीवन पंजाबी वाले की दुकान से दीना पंजाबी के मकान व नेवराज पंजाबी के मकान से चलकर सुनार गली के पूर्वी भाग को लेते हुये बौना धोबी के खेत की आबादी को छोड़ते हुये बक्सरिया गली की दोनों साईडों को लेते हुये लुहार गली के पश्चिम हिस्से को व छीपा गली चूडी गली की आबादी को शामिल करते हुये बाजार में राम सिंह पण्डित की दुकान तक छोटे बाजार में पश्चिम दिशा में चलकर जीवन पंजाबी की दुकान तक की समस्त आबादी।
13-	13	पण्डित साधूराम के मकान से चलकर भूदेव पाराशर कुन्दन व लच्छी के मकान को शामिल करते हुये गुल्ला वाले कुआ को छोड़ते हुये रूपवास कुण्डा रोड पर चलते हुये वापिस कुण्डा से वाटर वर्क्स को शामिल करते हुये वापिस उत्तर की ओर चलते हुये जैन मंदिर स्कूल एवं पूर्व की गली की आबादी को शामिल करते हुये राधाचरण एवं सन्तोश पाराशर के मकान को छोड़ते हुये जैन मंदिर के पूर्वी एवं दक्षिणी आबादी को शामिल करते हुये जैन मंदिर से ही पूर्व दिशा में चलते हुये रामदयाल चौधरी के मकान को लेते हुये सुरेश चन्द शर्मा के मकान को लेते हुये टीकम के मकान को छोड़ते हुये पण्डित साधूराम के मकान तक की समस्त आबादी।
14-	14	टीकम के मकान से चलकर मंगलराम के मकान को लेते हुये सीयाराम वकील एवं लोहरे कुशवाह गुल्ला वाले कुआ को शामिल करते हुये चेताराम कुशवाह के मकान को शामिल करते हुये रूपवास रोड के उत्तर की आबादी वमनपुरा चौराहे से गऊ घाट फाटक की ओर पंजाया मंदिर की आबादी एवं पंजाया मंदिर के नाले के सहारे-सहारे काछियों की धर्मशाला एवं मिश्रपाडा दोनों साईडों को शामिल करते हुये जयनारायण के मकान तक फिर वमनपुरा की ओर घटिया ऊपर समस्त काछियों की आबादी को शामिल करते हुये टीकम मास्टर के मकान तक की समस्त आबादी क्षेत्र तक।
15-	15	कन्हैया सुनार की दुकान के सामने भरतरी गली से छोटा बाजार में पश्चिम

		दिशा लुहार गली में दक्षिण दिशा में चलते हुये पूर्वी भाग की आबादी को शामिल करते हुये जैन गली में रास्ते-रास्ते दोनों तरफ की आबादी को लेते हुये खानखेडिया के मकान से पूर्व दिशा की ओर मुड़ते हुये नत्थी लाल अर्जनवीस के मकान को लेते हुये बाबू लाल काछी के मकान को लेते हुये बाबू लाल काछी से उत्तर दिशा में रास्ते-रास्ते चलकर बुद्धा धोबी के मकान को लेते हुये जयनारायण के मकान को छोड़ते हुये पूर्व की तरफ चलकर दामोदर दौजी के मकान तक की समस्त आबादी।
16-	16	महादेव गली चौराहा से बाजार में लाल दरवाजा तक दोनों साईडों की लाईनों को शामिल कर बाजार चलकर महादेव गली के पूर्वी भाग की आबादी खिडकी वाली गली खिडकी दरवाजे की गली से थलेश की टाल पर होकर लवकुश विद्या मंदिर की गली की दोनों साईड की आबादी को लेते हुये हरिजन बस्ती की सडक पर चलकर हरिजन बस्ती को छोड़ते हुये भुजबल अध्यापक रामनिवास नाई के पिछवाडे होकर मेहरा को शामिल करते हुये वापिस महादेव गली में आकर तरफ उत्तर दिशा में चलकर जग्गी पान वाले चौराहे पर राम प्रसाद लोहिया की दुकान से बाजार-बाजार पश्चिम दिशा में चलकर मम्मा मोरी की समस्त आबादी को शामिल करते हुये छोटे दरवाजे में होकर जवाहर शर्मा के मकान को लेते हुये तरफ दक्षिण दिशा में चलकर राम प्रसाद सिंघाडे वालों के मकान को लेते हुये गांगरा पाडा की समस्त क्षेत्र को शामिल करते हुये सरमन गुर्जर के मकान तक की समस्त आबादी।
17-	17 अनुसूचित जाति	भगवान सिंह टाईगर के मकान से पूर्वी दिशा में चलकर बट्टी के मकान चौक तक बट्टी के मकान से तरफ पूर्व दिशा में चलकर बल्लो की बाखर चामड वाली बाखर को शामिल करते हुये अँथाई तक अँथाई से पूर्व दिशा में चलकर भगवानदास के मकान से उत्तर दिशा में मुडकर पश्चिमी दिशा की आबादी को लेकर भगवान सिंह दौल चन्द के मकान तक भगवानदास के मकान से पूर्व दिशा में चलकर दक्षिणी भाग की आबादी को लेते हुये कलुआ के मकान तक कलुआ के मकान से दक्षिण दिशा में चलकर पप्पी के मकान तक पप्पी के मकान से दक्षिण दिशा में चलकर हरिजन बस्ती को शामिल करते हुये खिडकी लख्मी की चक्की तक खिडकी से पूर्वी दिशा में चलकर उत्तरी दक्षिणी भाग की आबादी को लेते हुये बंगाली के एवं दयाराम के मकान तक की समस्त आबादी।
18-	18 अनुसूचित जाति	बीधाराम के मकान से पूर्व दिशा में चलकर दक्षिणी भाग की समस्त आबादी को शामिल करते हुये पूरन खचेरी के मकान तक पूरन के मकान से पूर्व पश्चिम दिशा की आबादी को लेते हुये बाबू लालाराम के मकान तक बाबू के मकान से पश्चिम दिशा में चलकर हरी सिंह खूबी के मकान से उत्तर दिशा में मुडकर पूर्वी दिशा की आबादी बडी बाखर को लेते हुये अशोक षंकर के मकान तक जुल्ला वाली हवेली को शामिल करते हुये रामहवाली की बाखर को लेते हुये धनीराम के मकान तक मैन रोड पर धनीराम के मकान से पश्चिम

		की ओर चलकर उत्तरी पश्चिमी भाग की आबादी को लेते हुये नवल/तोलू के मकान तक नवल/तोलू के मकान से आगे अमर सिंह तेजा यादराम हरी मोहन लाल फूल सिंह शम्भूदयाल नवल मास्टर प्रेमदत्त मनोहरी के परिवारों को शामिल करते हुये तरफ उत्तर दिशा में चलकर रामू के मकान से सीधे-सीधे पूर्वी भाग की आबादी को लेते हुये बीधाराम के मकान तक की समस्त आबादी।
19-	19 अनुसूचित जाति	किशन/सालगा की दुकान से पश्चिम दिशा में चलकर उत्तरी भाग की समस्त आबादी को लेते हुये जसवन्त की दुकान पर पहुचकर उत्तर दिशा में मुडकर सीधे-सीधे चलकर पूर्वी भाग के कोलियों की आबादी को लेते हुये रामचरन गुड्डू के मकान पर पहुचकर किरावली वालों की दुकानों को शामिल करते हुये पूर्वी भाग की आबादी को शामिल करते हुये सीधे रोड पर चलकर पश्चिमी भाग में नवीन नगर पालिका महावीर भावडा वाली गली पंकर/टीका वाली गली को शामिल करते हुये दिनेश रेल्वे वाले के मकान से पूर्व दिशा में मुडकर गली में चलकर उत्तरी दक्षिणी भाग की समस्त आबादी को शामिल करते हुये शिव सिंह डहरा के मकान से दक्षिण दिशा में चलकर अड्डा स्कूल को लेते हुये पश्चिम भाग की आबादी को लेते हुये किशन/सालगा की दुकान तक की समस्त आबादी।
20-	20 अनुसूचित जाति	लालाराम के मकान से पूर्व दिशा में चलकर दक्षिणी भाग की समस्त आबादी को लेते हुये चौराहा से गुड्डू की दुकान से दक्षिण दिशा में मुडकर सीधे-सीधे चलकर खटीक बस्ती भूदर जमुना वाली बाखर को लेते हुये वापिस उत्तर दिशा में चलकर लाचारी अध्यापक वाली गली में पूर्व दिशा में चलकर उत्तरी भाग की आबादी को लेते हुये सीधे-सीधे चलकर अमर सिंह/मूल चन्द के मकान को शामिल करते हुये पश्चिमी दिशा की आबादी को लेते हुये भक्ति के मकान से पश्चिम दिशा में चलकर दीप चन्द खटीक की दुकान से दक्षिण दिशा में चलकर लाचारी के मकान तक वापिस जाटव बस्ती चौराहा पर पहुचकर रोड क्रॉस करके सामने वाली लाईन उत्तर दिशा में रामस्वरूप चूडी वाले से चलकर गुड्डू की मैडीकल की दुकान तक यहाँ से उत्तर दिशा में चलकर पश्चिमी भाग की आबादी को सीधे-सीधे चलकर कल्याण पटवारी वाली गली देवी सिंह पटवारी वाली गली किशन वर्मा वाली गली की दोनों साईड की आबादी को लेते हुये परभाती के मकान तक की समस्त आबादी।
21-	21	लुहार गली के सामने प्याऊ को छोडते हुये छोटे बाजार में पूर्व दिशा की ओर चलकर कानूनगो गली उत्तर दिशा की समस्त आबादी को शामिल करते हुये लखेरा गली में घुसकर पूर्वी एवं पश्चिमी दिशा की आबादी को लेते हुये दर्जीयों के मकानों को लेते हुये सागर शोरूम वाली लाईन को छोडते हुये चन्दा रैडीमेड वस्त्र वाली दुकान स्व० गोपी सुहॉस वाले का मकान गुलाब चन्द बिहारी लाल के मकान को लेते हुये मैन बाजार में आकर तरफ उत्तर दिशा में चलकर पूर्वी भाग की आबादी को शामिल करते हुये पुरानी सब्जी मण्डी चौराहा पर

		<p>पहुँचकर अशोक बोली की दुकान से पूर्व दिशा में मुड़कर लाल दरवाजा रोड पर चलकर अग्रसैन कन्या महाविद्यालय को शामिल कर यहाँ से सडक क्रॉस करके रामस्वरूप लोहिया वाली गली की एक साईड तरफ पूर्व दिशा में परशुराम बीएड कॉलेज को लेते हुये सत्यनारायण मंदिर खटीको के मकानों को शामिल करते हुये पुरानी बब्बू कसाई की हवेली तक यहाँ से सडक क्रॉस कर लाल दरवाजा के नीचे हरीमोहन जाटव पून्याराम पंजाबी पूरन खटीक के मकानों को शामिल करते हुये पून्याराम के मकान से गली में घुसकर दोनों साईड की आबादी को लेते हुये नौहरा मालियान की दोनों साईड की आबादी को शामिल करते हुये भूदेव मित्तल के मकान को लेते हुये मैन बाजार में उतरकर यहाँ से तरफ दक्षिण दिशा में चलकर जग्गी पान वाले चौराहे से पश्चिम दिशा में चलकर लखेरा गली तक उत्तर दिशा की समस्त आबादी।</p>
22-	22	<p>श्री धर्म सिंह माली की दुकानों से पश्चिम दिशा में चलकर क्रय विक्रय ऑफिस को शामिल करते हुये सीधे-सीधे दक्षिण दिशा में चलकर आगे से पश्चिम दिशा में चलकर बैजनाथ सरपंच सुनीज जैन की आढत वाली लाईन को शामिल करते हुये पूर्वी भाग में जानकीपुरम को लेते हुये कृशि उपज मण्डी कार्यालय को लेते हुये अग्रवाल भोजनालय (झालानी होटल) रानी वाले बाग की आबादी को शामिल करते हुये सेढ माता के मंदिर के सामने से सडक क्रॉस कर सराय गली में घुसकर दक्षिण दिशा की ओर चलकर पूर्वी भाग की आबादी को शामिल करते हुये धर्म सिंह धाकड की गली को शामिल करते हुये कमल भारद्वाज के मकान आतम चॉदना डब्बू चॉदना के मकान को लेते हुये पश्चिम दिशा की आबादी को छोडते हुये इन्दर सरदार की दुकान से पूर्व दिशा में चलते हुये उत्तर दिशा की आबादी को शामिल करते हुये बाजार की पूर्वी साईड की आबादी को लेते हुये पुरानी सब्जी मण्डी चौराहा क्रॉस करके उत्तर दिशा की आबादी में लोकेश रावत हैड पोस्ट ऑफिस के उत्तरी भाग की आबादी को शामिल करते हुये वेदप्रकाश पाठक के मकान से मुडकर तरफ पश्चिम में सुरेश अमर सिंह प्रजापत के मकान तक समस्त आबादी क्षेत्र।</p>
23-	23	<p>सूपा मार्केट के सामने अग्रवाल इन्टर प्राईजेज की दुकान से पूर्व दिशा में चलते हुये वेयर हाऊस के सहारे-सहारे चलकर उत्तर दिशा की आबादी को छोडकर केबिन को छोडकर गिरिजा चिल्ड्रन स्कूल की तरफ दक्षिण दिशा में चलकर धर्म सिंह माली की दुकानों से पश्चिम दिशा में चलकर दक्षिणी भाग की आबादी जानकीपुरम को छोडते हुये अग्रवाल धर्मशाला के पास अमर पैलेस वाली गली उत्तरी भाग की आबादी को शामिल करते हुये अग्रवाल धर्मशाला से सीधे दक्षिण दिशा में चलकर पूर्वी भाग की आबादी को छोडकर आगे से पश्चिम दिशा में मुडकर कृशि उपज मण्डी के कार्यालय को छोडते हुये छाबडा बैग स्टोर से उत्तर दिशा में स्टेशन रोड पर चलकर पूर्वी आबादी को शामिल करते हुये रामेश्वर तिवाडी रामदास मास्टर पूरन बारैठा की दुकानों को शामिल करते हुये अग्रवाल इन्टर प्राईजेज की दुकान तक की समस्त आबादी।</p>

24-	24	<p>रम्मो पान वाले की बगीची की आबादी को शामिल करते हुये पूर्व दिशा में बागड फील्ड रोड पर चलकर मुसलमानों कसाई पाडा शहजाद खाँ निजाम गरीबा के मकानों को शामिल कर उत्तरी दिशा की समस्त आबादी को लेते हुये सतीश दमदमा की दुकानों से तरफ उत्तर दिशा में मुडकर सलीम टेलर की दुकान को शामिल करते हुये गणेशी मार्केट में घुसकर उत्तरी भाग की लाईन को सुरेश माली के मकान से सीधे-सीधे रज्जी ठेकेदार की दुकान को लेते हुये उत्तरी भाग की आबादी को लेते हुये मक्खन वैष्य की दुकान से तरफ उत्तर दिशा में स्टेशन रोड पर चलकर पश्चिम दिशा की आबादी हरीओम गारमेन्ट की दुकान को शामिल करते हुये नई सब्जी मण्डी की समस्त आबादी को लेते हुये पटवारी फार्म हाऊस कृशणा मैडीकल को शामिल करते हुये यहाँ से कल्याण कॉलौनी में घुसकर तरफ दक्षिण दिशा की आबादी बीओबी बैंक पूरन बागरैन मुरारी वैद्य लीलाधर अग्रवाल श्याम धाकड के मकानों की समस्त आबादी को शामिल करते हुये यहाँ से वेद पटवारी के मकान से दक्षिण दिशा में मुडकर सकूजा बैग स्टोर के मकान को शामिल करते हुये जगमोहन ब्रह्यबाद वालों के मकान को लेते हुये कैलाश ठेकेदार व हरीओम बिन्दल के मकानों की दोनों साईड की समस्त आबादी को लेते हुये नरेश ब्रह्यबाद रज्जो सराय वालों के मकानों की लाईन को शामिल करते हुये कृशणा वैर वाले की दाल मिल को शामिल करते हुये यहाँ से सब्जी मण्डी रोड पर पूर्व दिशा में चलकर भूरा अग्रवाल एवं पूर्वी दिशा की समस्त आबादी को शामिल कर पिक्कू की दुकान को शामिल करते हुये सुरेश माली के मकान तक की समस्त आबादी।</p>
25-	25	<p>दमदमा वालों की हवेली से दक्षिण दिशा में चलकर तेली पाडा का पूर्वी हिस्सा लेते हुये छोटे बाजार में मुकेश पान वाले की दुकान तक छोटा बाजार में पूर्वी दिशा में चलकर उत्तर दिशा के मकानों की आबादी को शामिल करते हुये लुहार गली के सामने प्याऊ वाली गली में उत्तर दिशा की ओर चलकर दोनों तरफ की बृजेन्द्र नहरौली वाले व बाबू लाल जैन की मकानों की आबादी को लेते हुये छोटम टीला में पूर्व दिशा की ओर मुडकर अग्रवाल छात्रावास आरके टेलर अरौदा वालों की हवेली (दोनों साईड के मकानों की आबादी को लेते हुये) निरंजन नावली वाले के मकान से चलकर चौधरानों का चौक कन्हेया छैल स्व० प्रभू पटवा के मकानों को लेते हुये दर्जीयों के मकानों व लखेरा गली की आबादी को छोडते हुये सागर शोरूम मुरारी कपूरान के मकानों एवं उत्तर दिशा की समस्त आबादी को शामिल करते हुये मैन बाजार में आकर उत्तर दिशा की ओर चलकर पश्चिम दिशा की (छोटम टीला) समस्त आबादी को शामिल करते हुये सीधे-सीधे सब्जी मण्डी चौराहा से गंगा प्रसाद छीपी की दुकान को लेते हुये यहाँ से आर्य समाज रोड पर पश्चिम दिशा में चलकर आर्य समाज मंदिर एवं दक्षिण दिशा की समस्त आबादी (छोटम टीला) को लेते हुये दमदमा वालों की हवेली तक यहाँ से तरफ उत्तर दिशा में चलकर मोहन भरतरी की दुकान से उत्तर दिशा में ही चलकर डॉ० छबीलदास के मकान को</p>

		<p>शामिल करते हुये पश्चिम दिशा की समस्त आबादी को शामिल करते हुये बिल्लू झालानी राधेप्याम चाँदना के मकान को एवं दिनेश मित्तल हरवंश पीटीआई के मकानों को शामिल करते हुये पूर्व दिशा में चलकर भगत पंजाबी के मकान को शामिल करके उत्तर दिशा में चलकर गुरुद्वारा रूचिका गारमेन्ट को शामिल करते हुये यहाँ से पश्चिम दिशा में मुड़कर गणेशी मार्केट की दक्षिण दिशा की आबादी को शामिल करते हुये आगे चलकर बुद्धा बाबू की दुकान से तरफ दक्षिण दिशा में चलकर पश्चिम दिशा की आबादी को छोड़ते हुये पूर्व दिशा की आबादी को शामिल करते हुये खैमा माली के मकान तारा सरपंच के मकान को शामिल करते हुये रामचरन कपूरान की दुकानों को शामिल कर पूर्व दिशा में चलकर पंजाब नेशनल बैंक बैजनाथ सरपंच के मकान को शामिल करते हुये मोहन भरतरी की दुकान तक की समस्त आबादी।</p>
26-	26	<p>एसबीआई बैंक के सामने गोपाल माली की दुकान से उत्तर दिशा में चलकर पूर्व दिशा की आबादी को छोड़ते हुये उत्तर दिशा में चलकर गोमा खटीक अजीज अनवर सरदार सुरेन्द्र चावला के मकानों को शामिल करते हुये गणेशी मार्केट में पश्चिम दिशा में चलकर विनोद ट्रान्सपोर्ट को लेते हुये यहाँ से दक्षिण दिशा में चलकर पूर्वी दिशा की समस्त आबादी को लेते हुये बाबू कसाई के मकान को लेते हुये आर्य समाज रोड पर कसाई पाडा पुलिया पर आकर पश्चिम दिशा में चलकर वीरेन्द्र दमदमा की तेल मिल को लेते हुये बागड फील्ड के सहारे-सहारे चलकर जैन फोटो स्टेट की दुकान को लेते हुये जैन फोटो स्टेट की दुकान से कचहरी की तरफ दक्षिण दिशा में हिण्डौन रोड पर चलकर गाँधी चौक पर प्रेम हलवाई के मकान पुरानी नगर पालिका को शामिल करते हुये साधूराम वकील के मकान को लेते हुये दोनों साईड की आबादी को लेते हुये स्व० रतन बिस्कुट वालों की गली को लेते हुये उत्तरी दिशा के ढलान की आबादी को लेते हुये छोटा बाजार में आकर पूर्व दिशा की तरफ चलकर सुरेश मिशठान भण्डार अशोक तिवारी ठेकेदार सुरेश पेशकार व पश्चिमी भाग की समस्त आबादी को लेते हुये तेजपाल अध्यापक वाली गली की दोनों तरफ की आबादी को शामिल कर रामबाबू गौड की चक्की तक तेली पाडा में डॉ० नारायणदास मैडीकल हॉल से चलकर अरौदा वालों की हवेली एसबीआई बैंक बैंक के पीछे वाली गली की दोनों साईड के मकानों की आबादी को शामिल कर पश्चिम दिशा में चलकर वीरेन्द्र दमदमा की तेल मिल तक की समस्त आबादी।</p>
27-	27	<p>यज्ञप्रिय शर्मा के मकान से हिण्डौन भरतपुर रोड पर उत्तर दिशा में चलते-चलते भोला कारवारी देवी सिंह बुढवार का मकान गाँधी विद्या मंदिर को लेते हुये सीधे-सीधे मीराना तिराहे पर पहुचकर पूर्वी भाग की सन्ना माली आनन्द विहार कॉलौनी की समस्त आबादी को लेते हुये मीराना तिराहे से पूर्व दिशा में चलकर गिर्राज बंसल प्रदीप जैन रस्सो बाबू खँ के मकानों एवं</p>

		दक्षिणी भाग की आबादी को लेते हुये अनिल फर्नीचर की दुकान को लेते हुये दक्षिण दिशा में मुड़कर आगे चलकर रज्जो टॉटा के मकान वाली लाईन को शामिल करते हुये पूर्वी भाग की आबादी को छोड़ते हुये जुगल घडीसाज राधेप्याम पूर्व बीडीओ महेश बरखेडा सुभाश बागरैन एवं पश्चिमी भाग की समस्त आबादी को लेते हुये सब्जी मण्डी रोड क्रॉस कर पूर्वी दिशा में चलकर फूला पटेल मुन्ना दमदमा की दुकानों को शामिल कर दक्षिण दिशा में मुड़कर रोड क्रॉस कर बट्टा मार्केट में पश्चिम दिशा में घुसकर उत्तरी भाग की आबादी एवं दक्षिणी भाग की दुकानों की आबादी को लेते हुये यज्ञप्रिय शर्मा के मकान तक की समस्त आबादी।
28-	28	कृष्णा टॉकीज को शामिल करते हुये दक्षिण दिशा में सीधे-सीधे चलकर पश्चिमी भाग की आबादी को लेते हुये सूपा मार्केट को लेते हुये डॉ० रामकुमार वाली गली को शामिल करते हुये तरफ पश्चिम दिशा में पप्पी की दुकान से मुड़कर कल्याण कॉलौनी में घुसकर सीधे-सीधे उत्तर दिशा की आबादी को लेते हुये विश्णु दीपक के मकान को लेते हुये यहाँ से तरफ उत्तर में चलते हुये जुगल भट्टे वाले की दुकान से तरफ पूर्व दिशा में मीराना रोड पर चलकर दक्षिणी भाग की समस्त आबादी को लेते हुये प्रेमशंकर सिंघल एडवोकेट राकेश जगरिया के मकानों को लेते हुये पश्चिमी भाग की आबादी को शामिल करते हुये पूर्वी भाग की आबादी को छोड़ते हुये कृष्णा टॉकीज के गेट तक की समस्त आबादी।
29-	29	बजरिया आबकारी विभाग से दक्षिण की तरफ चलते हुये गोपालराम भावडा का होटल सुनील हार्डवेयर की दुकान एवं पूर्वी भाग की समस्त आबादी को लेते हुये सुभाश चौक तक सुभाश चौक से दक्षिण दिशा में चलते हुये सडक के दोनों साईडों पूर्व एवं पश्चिम दिशा की आबादी के वनबारी लाल रमन जगदीश भौरी लाल घनप्याम के मकानों को शामिल करते हुये नरेन्द्र की तेल मिल तक टॉकीज के सामने मटरूआ की दुकानों से दक्षिण दिशा में चलकर पश्चिम भाग की आबादी को छोड़ते हुये रेशम देवी के खेत से पूर्व की ओर मुड़कर चलते हुये सुख चन्द गुड वाले बैजनाथ अध्यापक के मकानों को लेते हुये छोटे पूरन बारैठा वालों की दुकानों को शामिल करते हुये उत्तर दिशा में मुड़कर वामडा पुलिया से चलकर रैन बसेरा वामडा मंदिर को शामिल करते हुये रेल्वे सीमा के सहारे-सहारे चलकर स्टेशन बजरिया को मुड़कर आबकारी विभाग तक दक्षिण भाग की समस्त आबादी।
30-	30	प्रमोद वैष्य के मकान वामडा पुलिया दक्षिण की तरफ चलकर विश्णु दमदमा के मकान साहब सिंह चौधरी पूरन बारैठा वाले के मकान तारा चन्द मदनपुर वाले के मकान को शामिल करते हुये पूर्वी भाग की आबादी वामडा कॉलौनी में सीताराम दमदमा के मकान को शामिल करते हुये वेयर हाऊस रोड की उत्तरी भाग की आबादी वेयर हाऊस रोड से ए केबिन रेल्वे सीमा के सहारे-सहारे उत्तर की ओर चलकर रेल्वे सीमा की पश्चिम दिशा की समस्त आबादी को

		लेते हुये वामडा मंदिर को छोड़ते हुये राजेश गोयल के मकान को शामिल करते हुये दक्षिणी भाग की आबादी को शामिल करते हुये प्रमोद वैष्णव के मकान तक की समस्त आबादी।
31-	31	विनोद पान वाले की दुकान से पश्चिम दिशा में चलकर बजरिया में स्व० बलवीर सिंह पटेल की नव निर्मित दुकानों को शामिल करते हुये उत्तर दिशा में चलकर पूर्वी एवं पश्चिमी भाग की समस्त आबादी को शामिल करते हुये नत्थी गुर्जर टी०टी० स्व० बलवीर सिंह पटेल के मकानों को शामिल करते हुये रमन पण्डित के मकान के पूर्वी एवं पश्चिमी दिशा की आबादी को शामिल करते हुये उत्तर दिशा में चलकर पश्चिमी हिस्से को शामिल करते हुये रोशन कोली तक रोशन कोली के मकान से रेल्वे अण्डरपास पर आकर दक्षिणी दिशा से रोड पर चलकर रेल्वे के क्वार्टरों को लेते हुये पूर्वी आबादी को छोड़ते हुये रेल्वे स्टेशन के सामने से होते हुये विनोद पान वाले की दुकान तक की समस्त आबादी।
32-	32	कान्हा स्टोन से पश्चिम दिशा में चलकर बी०एस० स्टोन को शामिल करते हुये दक्षिण दिशा में मुड़कर शारदा स्टोन से पश्चिम दिशा में चलकर रीको ऑफिस को शामिल करते हुये मधु स्टोन जैन स्टोन को छोड़ते हुये दक्षिण दिशा में मुड़कर रीको के पूर्वी हिस्से को शामिल करते हुये वीरेन्द्र स्टोन व साईड में खाली प्लॉट से चलकर रीको नाला पुलिया से पूर्व दिशा में चलकर दोनों साईड के मकानों की आबादी को लेते हुये उत्तरी पूर्वी भाग की समस्त आबादी को लेते हुये रूप सिंह चौधरी के मकान से दक्षिण दिशा में चलकर पश्चिमी हिस्से की आबादी को छोड़ते हुये महेश पुत्र रामभरोसी व प्रहलाद काचेरा वालों की गली में घुसकर पैठे के कारखाने को लेते हुये पूर्वी भाग की समस्त आबादी को शामिल करते हुये आगे चलकर भुल्लन माली के खेतों की उत्तरी आबादी को शामिल करते हुये षेर सिंह सूपा के फार्म हाऊस को छोड़ते हुये ब्राह्मण धर्मशाला के उत्तरी भाग की समस्त आबादी को शामिल करते हुये बिजलीघर से स्टेशन रोड पर चलकर मिततल पेट्रोल पम्प को लेते हुये सुरेन्द्र दुबे ठेकेदार की आबादी को शामिल करते हुये गाँधी सेवा सदन की समस्त आबादी को एवं बजरिया पेट्रोल पम्प को लेते हुये बजरिया चौराहे से उत्तर दिशा में चलकर पीडब्ल्यूडी कार्यालय को छोड़ते हुये रामस्वरूप भट्टे को लेते हुये उत्तर दिशा में गाँधी सेवा सदन की दीवार के सहारे-सहारे चलते हुये नगला स्टोर की पश्चिमी सीमा को छोड़ते हुये उत्तर में सौभाग्यमल जैन के मकान को छोड़ते हुये व पत्थर के घट्टों को छोड़ते हुये पश्चिम दिशा में चलकर समस्त लाल बाग क्षेत्र की समस्त आबादी को लेते हुये सीधे-सीधे चलकर कान्हा स्टोन तक की समस्त आबादी।
33-	33	पप्पू दमदमा वाले सुभाश सर्किल से बजरिया की तरफ उत्तर दिशा में चलकर उमरैड वालों की बगीची विजय कॉलौनी जैन मंदिर बजरिया बस स्टैण्ड भरतरी कॉलौनी की समस्त आबादी को शामिल करते हुये बिजलीघर से सीधे-

		सीधे चलकर साधूराम तमोली की दुकान (पंचायत समिति तिराहा पर) से तरफ दक्षिण दिशा में घुसकर पंचायत समिति क्वार्टर देवनारायण कॉलेज महेन्द्र तिवारी पटवारी मीराना तिराहे पर मकान को शामिल करते हुये भरत सिंह सर्किल से पूर्व दिशा में मीराना रोड पर चलकर कब्रिस्तान को शामिल करते हुये उत्तर दिशा की समस्त आबादी को शामिल करते हुये षील संस्कार वाटिका आदर्ष विद्या मंदिर स्कूल को लेते हुये पप्पू दमदमा वाले की दुकान तक की समस्त आबादी।
34-	34	बिजलीघर के सामने से मुरारी लाल खैमरिया के मकान से सीधे-सीधे पश्चिम दिशा की ओर चलकर उत्तरी आबादी को शामिल करते हुये भगवत अध्यापक के मकान से तरफ उत्तर दिशा में चलकर लक्ष्मीनारायण शर्मा के मकान को एवं पूर्वी दिशा की आबादी को शामिल करते हुये जगमोहन धाकड के मकान से पश्चिम दिशा की तरफ मुडकर उत्तरी दिशा की आबादी को शामिल करते हुये रामकिशोर नकेला खरैरी के मकान से उत्तर दिशा की तरफ चलकर पश्चिमी दिशा की आबादी को छोडते हुये सीधे पूर्वी दिशा की आबादी को शामिल करते हुये त्यौहारी वालों के मकान से पश्चिम दिशा में चलकर होरी लाल के मकान से उत्तर दिशा में चलकर पूर्वी आबादी को शामिल करते हुये पूरन बारैठा वालों के प्लॉटों से होते हुये उत्तर दिशा में नाले के सहारे-सहारे रीको लाल बाग की पुलिया से पूर्व दिशा में चलकर बी०एस० चौधरी के मकान से चलकर दक्षिण दिशा में मुडकर आगे से निरंजन आर्य उमरैड वाले के सामने पूर्व दिशा में चलकर साहब सिंह धाकड के मकान को शामिल करते हुये दोनों साईड की आबादी को शामिल करते हुये पूर्व दिशा में चलकर पूर्वी दिशा में चलकर बच्चू सिंह धाकड भगोरी वालों के मकान से दक्षिण दिशा में चलकर पश्चिम दिशा की आबादी को शामिल करते हुये काचैरा वालों से पूर्वी दिशा के मकानों की सभी आबादी को छोडते हुये धर्म सिंह जाट के प्लॉटों से तरफ पूर्व की ओर मुडकर आगे चलकर दक्षिण दिशा में मुडकर आगे चलकर पूर्व की ओर मुडकर मुकेश चन्द धाधरैन वालों के मकान एवं उत्तरी दक्षिणी आबादी को शामिल करते हुये रघुनाथ नेताजी चाय वाले के मकान से दक्षिण दिशा में चलकर षेर सिंह सूपा के फार्म हाऊस शामिल करते हुये पश्चिम दिशा की आबादी को शामिल करते हुये बैजनाथ तिवारी अशोक सिंघाडा वालों के मकान को शामिल करते हुये मुरारी लाल खैमरिया के मकान तक की समस्त आबादी।
35-	35	पंचायत समिति रामजीलाल धाकड की दुकानों से पूर्व दिशा की ओर चलकर जलदाय विभाग एवं मुस्लिम कॉलौनी को शामिल करते हुये पूर्व की ओर चलकर बिजलीघर के सामने मुरारी लाल खैमरिया के मकान से उत्तरी भाग की आबादी को छोडते हुये पश्चिम की तरफ चलकर षिवालिक एकेडमी से उत्तर दिशा में चलकर गया प्रसाद शर्मा ठेकेदार के मकान से पश्चिम दिशा में चलकर दक्षिण दिशा की समस्त आबादी को शामिल करते हुये कलुआ के मकान से उत्तर की ओर बृजेन्द्र कनावर के मकान से मुडकर पश्चिम दिशा

	<p>की ओर चलकर दक्षिण दिशा की आबादी को शामिल करते हुये लखन सिंह सूबेदार के मकान से मुडकर उत्तर की ओर चलकर बहादुर सिंह नदवई वालों के मकान को शामिल करते हुये पूरन बारैठा वालों के प्लांटों से नाले की पुलिया को पार कर रीको रोड पर उत्तर दिशा की तरफ चलकर जैन स्टोर इण्डस्ट्रीज से पश्चिम दिशा में मुडकर हिण्डौन भरतपुर रोड पर पहुचकर गौरव सर्विस सेन्टर से दक्षिण की ओर मैन रोड के सहारे-सहारे चलकर बीएसएनएल कार्यालय एवं पूर्वी रीको क्षेत्र के भाग को शामिल करते हुये डाक बंगला रामदास अध्यापक तथा पूर्वी क्षेत्र की आबादी को शामिल कर कृष्णा मैरिज होम से रामजीलाल धाकड की दुकानों तक की समस्त आबादी।</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अधिशायी अधिकारी
नगरपालिका बयाना

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।